

**NOKIA**

# Nokia 7.2

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

## वषिय सूची

<b>1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में</b>	<b>5</b>
<b>2 शुरू करें</b>	<b>6</b>
अपने फ़ोन को अद्यतित रखें . . . . .	6
कुंजियां और पुरजे . . . . .	6
SIM और मेमोरी कार्ड डालें . . . . .	7
अपना फ़ोन चार्ज करें . . . . .	8
फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें . . . . .	9
दोहरी SIM सेटिंग . . . . .	10
अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें . . . . .	10
टच स्क्रीन का उपयोग करें . . . . .	11
<b>3 बुनियादी तथ्य</b>	<b>15</b>
अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें . . . . .	15
नोटफिकेशन . . . . .	15
वॉल्यूम नियंत्रित करें . . . . .	16
FM रेडियो . . . . .	17
स्वचालित लेख सुधार . . . . .	17
Google Assistant . . . . .	18
स्क्रीनशॉट . . . . .	19
एक्सेस योग्यता . . . . .	19
बैटरी लाइफ़ . . . . .	20
<b>4 अपने मत्त्रों और परिवार के साथ कनेक्ट करें</b>	<b>22</b>
कॉल . . . . .	22
संपर्क . . . . .	22
संदेश भेजें . . . . .	23
मेल . . . . .	23
सामाजिक बनें . . . . .	24

<b>5</b>	<b>कैमरा</b>	<b>25</b>
	कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें . . . . .	25
	वीडियो रिकॉर्ड करें . . . . .	26
	अपने कैमरे का पेशेवर की तरह उपयोग करें . . . . .	27
	अपने फ़ोटो और वीडियो मेमोरी कार्ड में सहेजें . . . . .	28
	आपके फ़ोटो और वीडियो . . . . .	29
<b>6</b>	<b>इंटरनेट और कनेक्शन</b>	<b>30</b>
	वाई-फ़ाई सक्रिय करें . . . . .	30
	मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें . . . . .	30
	वेब ब्राउज़ करें . . . . .	31
	Bluetooth® . . . . .	32
	VPN . . . . .	34
<b>7</b>	<b>अपना दिन व्यवस्थित करें</b>	<b>35</b>
	दनांक और समय . . . . .	35
	अलार्म घड़ी . . . . .	35
	कैलेंडर . . . . .	36
<b>8</b>	<b>मानचित्र</b>	<b>37</b>
	स्थान ढूँढ़ें और दिशादिश प्राप्त करें . . . . .	37
	मानचित्र डाउनलोड और अपडेट करें . . . . .	38
	स्थान सेवाओं का उपयोग करें . . . . .	38
<b>9</b>	<b>ऐप, अद्यतन और बैकअप</b>	<b>40</b>
	Google Play से ऐप प्राप्त करें . . . . .	40
	अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें . . . . .	40
	अपने डेटा का बैकअप लें . . . . .	41
	मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नज़ी सामग्री हटाएं . . . . .	41
	मेमोरी . . . . .	41

<b>10 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें</b>	<b>43</b>
स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें . . . . .	43
अपने फ़ोन को अपने फ़िंगरप्रिंट से सुरक्षित करें . . . . .	43
अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना . . . . .	43
अपने SIM का पिन कोड बदलें . . . . .	44
एक्सेस कोड . . . . .	45
<b>11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी</b>	<b>47</b>
आपकी सुरक्षा के लिए . . . . .	47
नेटवर्क सेवाएं और लागतें . . . . .	50
आपातकालीन कॉल . . . . .	50
अपने डेटा का ध्यान रखें . . . . .	51
रीसाइकल करना . . . . .	52
ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है . . . . .	52
बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी . . . . .	52
छोटे बच्चे . . . . .	54
चकित्सा उपकरण . . . . .	54
प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण . . . . .	54
सुनने की क्षमता . . . . .	54
अपने डेटा की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें . . . . .	55
वाहन . . . . .	55
संभावित रूप से वस्फोटक जगहें . . . . .	55
प्रमाणन जानकारी (SAR) . . . . .	55
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में . . . . .	56
कॉपीराइट और नोटिस . . . . .	57

## 1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में



**महत्वपूर्ण:** अपने डविइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डविइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डविइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

## 2 शुरू करें

### अपने फ़ोन को अद्यतति रखें


#### आपके फ़ोन का सॉफ़्टवेयर

अपना फ़ोन अद्यतति रखें और उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अपडेट स्वीकार करें ताकि आपको अपने फ़ोन के लिए नई ओर बेहतर सुविधाएँ मिल सकें. सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है.

### कुंजियाँ और पुरजे

अपने नए फ़ोन की कुंजियाँ और पुरजों का जायज़ा लें.

#### आपका फ़ोन



उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका नमिन् मॉडल पर लागू होती है: TA-1196, TA-1181, TA- 1178 और TA-1193.

1. फ़गिरप्रटि सेंसर
2. कैमरा
3. माइक्रोफ़ोन
4. फ़्लैश
5. SIM और मेमोरी कार्ड स्लॉट
6. Google Assistant/Google खोज कुंजी<sup>1</sup>
7. फ्रंट कैमरा
8. ईयरपीस

## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 9. हेडसेट कनेक्टर    | 12. USB कनेक्टर |
| 10. वॉल्यूम कुंजियां | 13. माइक्रोफ़ोन |
| 11. पावर/लॉक कुंजी   | 14. लाउडस्पीकर  |

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज़, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।



**महत्वपूर्ण:** इस डिविइस का पीछे वाला कवर कांच का बना हुआ है। यदि डिविइस किसी कठोर सतह पर गरिता है या उसे तेज़ आघात लगता है, तो यह कांच टूट सकता है। यदि कांच टूट जाता है, तो डिविइस के कांच के पुरजों को स्पर्श न करें या डिविइस से टूटा हुआ कांच निकालने का प्रयास न करें। जब तक अधिकृत सेवा कर्मचारी कांच न बदले, तब तक इस डिविइस का उपयोग न करें।

### पार्ट और कनेक्टर, चुंबकत्व


सिग्नल उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट कनेक्ट न करें, क्योंकि इससे डिविइस को क्षतिपिहुंच सकती है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डिविइस के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृति दी गई चीजों के अलावा कोई बाह्य डिविइस या हेडसेट कनेक्ट करते/करती है, तो वॉल्यूम के स्तर पर खास ध्यान दें।

डिविइस के पुरजे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डिविइस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या चुंबकीय पट्टी वाले अन्य कार्ड लंबे समय तक उपकरण के नजदीक न रखें, क्योंकि इससे आपके कार्ड खराब हो सकते हैं।

<sup>1</sup> Google Assistant चुनदा बाज़ारों और भाषाओं में उपलब्ध है। जहाँ भी Google Assistant उपलब्ध न हो, वहाँ उसकी जगह पर Google खोज उपलब्ध रहेगा। <https://support.google.com/assistant> पर उपलब्धता देखें।

### SIM और मेमोरी कार्ड डालें

#### SIM और मेमोरी कार्ड डालें



## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

1. समि और मेमोरी कार्ड का ट्रे खोलें: ट्रे के छद्म में ट्रे खोलने वाला पिन घुसाएं और ट्रे को बाहर की ओर खसिकाएं.
2. अगर आपके पास एक-SIM वाला फ़ोन है, तो संपर्क वाले क्षेत्र को नीचे की ओर करके स्लॉट 1 के ट्रे में नैनो-SIM कार्ड डालें और स्लॉट 2 के ट्रे में मेमोरी कार्ड डालें. अगर आपके पास दो-समि वाला फ़ोन है, तो संपर्क वाले क्षेत्र को नीचे की ओर करके स्लॉट 1 में नैनो-समि कार्ड डालें और स्लॉट 2 में कोई दूसरा समि या मेमोरी कार्ड डालें.
3. ट्रे को वापस स्लॉट के अंदर खसिकाएं.<sup>1</sup>

केवल इस डवाइस के लिए उपयुक्त और स्वीकृत मेमोरी कार्ड का उपयोग करें. असंगत कार्ड्स के कारण कार्ड और डवाइस को नुकसान पहुंच सकता है और कार्ड में संग्रहित डेटा दूषित हो सकता है.

**!** **नोट:** यदि आपके पास केवल एक समि ट्रे वाला डुअल समि फोन है, तो आप एक ही समय में दो समि कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते।

### SIM और मेमोरी कार्ड नकालें


1. समि और मेमोरी कार्ड का ट्रे खोलें: ट्रे के छद्म में ट्रे खोलने वाला पिन घुसाएं और ट्रे को बाहर की ओर खसिकाएं.
2. SIM और मेमोरी कार्ड नकालें.
3. ट्रे को वापस स्लॉट के अंदर खसिकाएं.

**!** **महत्वपूर्ण:** जब कोई ऐप मेमोरी कार्ड का उपयोग कर रहा हो तो उसे न नकालें। ऐसा करने से मेमोरी कार्ड और डवाइस को नुकसान हो सकता है तथा कार्ड पर संग्रहीत डेटा भी दूषित हो सकता है।

<sup>1</sup> असली नैनो-SIM कार्ड का उपयोग करें. असंगत समि कार्ड के उपयोग से कार्ड या डवाइस को नुकसान हो सकता है और कार्ड पर संग्रहीत डेटा खराब हो सकता है.

### अपना फ़ोन चार्ज करें

#### बैटरी चार्ज करें



1. दीवार पर लगे पावर आउटलेट में एक संगत चार्जर लगाएं.

### 2. केबल अपने फ़ोन से कनेक्ट करें.

आपका फ़ोन USB-C केबल को सहायक है. आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से USB केबल के ज़रिये भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा.

यदि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, तो चार्जिंग संकेतक के प्रदर्शित होने में कई मिनट लग सकते हैं.

## फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें

जब आप अपना फ़ोन पहली बार चालू करते हैं, तो फ़ोन आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन और फ़ोन सेटिंग सेट अप करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है.

### अपना फ़ोन चालू करें

1. अपना फ़ोन चालू करने के लिए, पावर कुंजी को तब तक दबाए रखें, जब तक कि फ़ोन में कंपन न हो.
2. जब आपका फ़ोन चालू हो, तब अपनी भाषा और क्षेत्र चुनें.
3. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

### अपने पछिले फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करें

आप अपने Google खाते का उपयोग करके किसी पुराने फ़ोन से अपने नए फ़ोन में डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं.

अपने पुराने फ़ोन के डेटा का Google खाते पर बैकअप लेने के लिए, अपने पुराने फ़ोन की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

1. **सेटिंग** > **खाते** > **खाता जोड़ें** > **Google** पर टैप करें.
2. वह डेटा चुनें, जिसे आप अपने नए फ़ोन पर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं. जैसे ही आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, समन्वयन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी.

### अपने पछिले Android™ फ़ोन की ऐप सेटिंग पुनर्स्थापित करें

यदि आपका पछिला फ़ोन Android था और उस पर Google खाते पर बैकअप लेने की सुविधा संभव है, तो आप अपनी ऐप सेटिंग और वाई-फ़ाई पासवर्ड पुनर्स्थापित कर सकते हैं.

1. **सेटिंग** > **सिस्टम** > **उन्नत** > **बैकअप** पर टैप करें.
2. **Google Drive पर बैकअप लें** को **चालू** पर स्विच करें.

## दोहरी SIM सेटिंग

अगर आपके पास दोहरे SIM वाला वेरिएंट है, तो आप अपने फ़ोन में 2 SIM रख सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक अपने कामकाज के लिए और दूसरा अपने नज़ी उपयोग के लिए.

### यह चुनें कि आप कौन-से SIM का उपयोग करना चाहते हैं

उदाहरण के लिए, कॉल करते समय आप नंबर डायल करने के बाद संबंधित SIM 1 या SIM 2 बटन पर टैप करके वह SIM चुन सकते हैं, जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं.

आपका फ़ोन दोनों SIM की नेटवर्क स्थिति अलग-अलग दिखाता है. जब डेटा का उपयोग न किया जा रहा हो, तब दोनों SIM कार्ड एक ही समय पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक SIM कार्ड सक्रिय हो, उदाहरण के लिए कॉल करते समय, तब दूसरा वाला उपलब्ध नहीं होगा.

### अपने SIM प्रबंधित करें

क्या आप अपने खाली समय के दौरान कामकाज का हस्तक्षेप नहीं चाहते? अथवा क्या आपके एक SIM पर अपेक्षाकृत सस्ता डेटा कनेक्शन है? आप तय कर सकते हैं कि आप कौन-से SIM का उपयोग करना चाहते हैं.

**सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **SIM कार्ड** पर टैप करें.

### SIM कार्ड का नाम बदलें

आप जिस SIM का नाम बदलना चाहते हैं उस पर टैप करें और अपना मनचाहा नाम टाइप करें.

### यह चुनें कि आप कॉल या डेटा कनेक्शन के लिए किस SIM का उपयोग करना चाहते हैं

**इसके लिए पसंदीदा SIM** के अंतर्गत, उस सेटिंग पर टैप करें, जिसे आप बदलना चाहते हैं और SIM चुनें.

## अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें

### अपना फ़ोन लॉक करें

यदि आप नहीं चाहते कि जब आपका फ़ोन आपकी जेब या बैग में हो, तब गलती से कॉल हो जाए, तो आप अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक कर सकते हैं.

अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक करने के लिए, पावर कुंजी दबाएं.

### कुंजियां और स्क्रीन अनलॉक करें

पावर कुंजी दबाएं और स्क्रीन पर ऊपर की तरफ़ स्वाइप करें. मांगे जाने पर, अतिरिक्त क्रेडेंशियल प्रदान करें.

## टच स्क्रीन का उपयोग करें


**महत्वपूर्ण:** टच स्क्रीन को खरोंच लगने से बचाएँ. टच स्क्रीन पर कभी भी वास्तविक पेन, पेंसिल या अन्य नुकीली चीज़ का उपयोग न करें.

किसी आइटम को खींचने के लिए टैप और होल्ड करें




अपनी अंगुली को आइटम पर कुछ सेकंड तक रखें और फिर अपनी अंगुली को स्क्रीन के एक से दूसरे सरि की ओर सरकाएँ.

## स्वाइप करें




अपनी अंगुली स्क्रीन पर रखें और उसे अपनी मनचाही दशा में स्लाइड करें.

## किसी लंबी सूची या मेनू को स्क्रॉल करें



अपनी अंगुली को स्क्रीन पर तेज़ी से ऊपर या नीचे स्लाइड करें और अपनी अंगुली ऊपर उठा लें. स्क्रॉलिंग बंद करने के लिए, स्क्रीन पर टैप करें.

## जूम इन या आउट करें





मानचित्र, फ़ोटो या वेब पृष्ठ जैसे किसी आइटम पर 2 अंगुलियां रखें और अपनी अंगुलियों को अलग-अलग दिशा में या एक साथ स्लाइड करें.

## स्क्रीन अभिविन्यास लॉक करें

जब आप अपने फ़ोन को 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तो स्क्रीन अपने आप घूम जाती है.

स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में लॉक करने के लिए स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें और **स्वतः घुमाना** पर टैप करें.

## नेविगेशन कुंजियों का उपयोग करें

- अपने सभी ऐप्स देखने के लिए, होम कुंजी  को ऊपर स्वाइप करें और फिर उसे दोबारा ऊपर स्वाइप करें.
- होम स्क्रीन पर जाने के लिए, होम कुंजी पर टैप करें. आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा.
- यह देखने के लिए कि आपने कौन-कौन से ऐप्स खोल रखे हैं, होम कुंजी को ऊपर स्वाइप करें.
- दूसरे चल रहे ऐप पर स्विच करने के लिए, दाएँ स्वाइप करें.
- कोई ऐप बंद करने के लिए, उसे ऊपर स्वाइप करें.
- चल रहे सभी ऐप्स बंद करने के लिए, सभी ऐप्स को ऊपर स्वाइप करें और **सभी मटाएं** पर टैप करें.
- आप पहले जिस स्क्रीन पर थे उस पर वापस जाने के लिए, वापस जाएँ कुंजी  पर टैप. आपका फ़ोन पछिली बार आपकी स्क्रीन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है.

## आपके फ़ोन का प्रदर्शन

क्या आप अपने फ़ोन का उपयोग करके वीडियो, फोटो देखते हैं, ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ते हैं या गेम खेलते हैं? स्क्रीन को देखने में बेहतर बनाने के लिए, अपने उपयोग के अनुसार रंग, कॉन्ट्रास्ट और चमक को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए डायनेमिक मोड पर स्विच करें।

सेटिंग > प्रदर्शन > उन्नत > PureDisplay पर टैप करें और डायनेमिक मोड का स्विच चालू कर दें।

यह चुनने के लिए कौन से ऐप्स डायनेमिक मोड का उपयोग करते हैं, सेटिंग > प्रदर्शन > उन्नत > PureDisplay > डायनेमिक मोड पर टैप करें। मोड का चयन करें, उदाहरण के लिए, फ़ोटो और सूची में से ऐप्स को सक्षम करें।

यदि आप च्चनौतीपूर्ण प्रकाश वाली स्थितियों में अपनी स्क्रीन पर रंगों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं, तो स्वतः श्वेत संतुलन पर स्विच करें।

यदि आप अपनी स्क्रीन के बारे में अधिक विवरण देखना चाहते हैं, तो SDR से HDR (मानक डायनेमिक रेंज से उच्च डायनेमिक रेंज) पर स्विच करें। यह आपकी सभी SDR वीडियो सामग्री को वास्तविक समय में HDR गुणवत्ता में रूपांतरित कर देता है।

## 3 बुनियादी तथ्य

### अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें

होम स्क्रीन वैयक्तिकृत करने और रिंगटोन बदलने का तरीका जानें.

#### अपना वॉलपेपर बदलें

सेटिंग > प्रदर्शन > वॉलपेपर पर टैप करें.

#### अपने फ़ोन की रिंगटोन बदलें

1. सेटिंग > ध्वनि पर टैप करें.
2. अलग-अलग SIM की अलग-अलग रिंगटोन चुनने के लिए फ़ोन रिंगटोन (SIM1) या > फ़ोन रिंगटोन (SIM2) चुनें.

#### अपने संदेश की नोटिफिकेशन ध्वनि बदलें

सेटिंग > ध्वनि > सामान्य सूचना ध्वनि पर टैप करें.

### नोटिफिकेशन

नोटिफिकेशन के साथ अपने फ़ोन के संबंध में ताज़ा जानकारी पाते रहें.

#### नोटिफिकेशन फलक का उपयोग करें


संदेश या छूटी कॉल जैसे नए नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर, स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद स्थितिबार में संकेतक आइकन दिखाई देते हैं. नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, स्थितिपट्टी नीचे की ओर खींचें. दृश्य बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें.

नोटिफिकेशन फलक खोलने के लिए, स्थितिबार को नीचे की ओर खींचें. नोटिफिकेशन फलक बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें.

किसी ऐप की नोटिफिकेशन सेटिंग बदलने के लिए सेटिंग > ऐप और नोटिफिकेशन पर टैप करें और जिस ऐप की सेटिंग खोलनी है उसके नाम पर टैप करें. नोटिफिकेशन पर टैप करें. आप हर ऐप के लिए नोटिफिकेशन को अलग-अलग चालू या बंद कर सकते हैं.

- टिप:** नेटफिकेशन बटु देखने के लिए, सेटगि > ऐप्स और नोटफिकेशन > नोटफिकेशन पर टैप करें और नोटफिकेशन बटु को अनुमति दें को चालू पर स्वचि करें. अगर आपको एक नोटफिकेशन प्राप्त हुआ है और आपने उसे देखा नहीं है, तो ऐप आइकन पर एक छोटा बटु दिखाई देगा. उपलब्ध विकल्पों को देखने के लिए उस आइकन पर टैप करके रखें. आप उसे खोलने के लिए उस नोटफिकेशन पर टैप कर सकते हैं या उसे खारजि करने के लिए स्वाइप कर सकते हैं.
- युक्ति:** ऐप्स से नोटफिकेशन प्राप्त होने पर पावर/लॉक कुंजी को बलकि करने हेतु सेट करने के लिए, सेटगि > ऐप्स और नोटफिकेशन > उनुनत > नोटफिकेशन लाइट पर टैप करें. अगर आपको कोई नोटफिकेशन प्राप्त होता है और आप उसे देखते नहीं है, तो पावर/लॉक कुंजी बलकि करेगी.

### त्वरति सेटगि आइकन का उपयोग करें



सुवधाओं को सक्रयि करने के लिए, नोटफिकेशन पैनल पर मौजूद त्वरति सेटगि आइकन पर टैप करें. अधकि आइकन देखने के लिए, मेनु को नीचे की ओर खींचें.

इन आइकनों को पुनः व्यवस्थति करने के लिए, ✎ पर टैप करें, कसिी आइकन पर टैप करके उसे दबाकर रखें और फरि उसे खींचते हुए कसिी दूसरे स्थान पर ले जाएं.


### वॉल्यूम नयित्तरति करें

#### वॉल्यूम बदलें



यदि आपको शोरगुल वाले परविश में अपने फ़ोन की रगि सुनने में परेशानी हो रही है या कॉल की आवाज ज़रूरत से ज्यादा है, तो आप अपने फ़ोन के कनारे स्थति वॉल्यूम कुंजियों का उपयोग करके वॉल्यूम को मनचाहे स्तर पर बदल सकते हैं.


ऐसे उत्पादों के साथ कनेक्ट न करें, जो आउटपुट सग्नल पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर डवाइस को नुकसान पहुंच सकता है. ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज स्रोत कनेक्ट न करें. यदि आप ऑडियो कनेक्टर के साथ इस डवाइस के साथ उपयोग के लिए अनुमोदति डवाइस या हैडसेट के बजाय कोई बाहरी डवाइस या हैडसेट कनेक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम स्तरों पर वशिष ध्यान दें.

## मीडिया और ऐप्स का वॉल्यूम बदलें

वॉल्यूम स्थितिबार देखने के लिए अपने फ़ोन के कनारे स्थिति वॉल्यूम कुंजी दबाएं, फरि  पर टैप करें फरि मीडिया और ऐप्स के लिए वॉल्यूम बार के स्लाइडर को बाएं या दाएं खींचें।

## फ़ोन को मौन पर सेट करें

फ़ोन को साइलेंट पर सेट करने के लिए, वॉल्यूम नीचे कुंजी दबाएँ,  पर टैप करके अपने फ़ोन को केवल वाइब्रेट करने पर सेट करें और  पर टैप करके इसे साइलेंट पर सेट करें।

 **युक्ति:** क्या आप अपने फ़ोन को मौन मोड में नहीं रखना चाहते, लेकिन अभी उत्तर देने में असमर्थ हैं? इनकमगि कॉल को मौन करने के लिए, वॉल्यूम कम करें कुंजी दबाएँ। आप अपना फ़ोन पक़ि करते समय रगिटोन को म्यूट करने के लिए भी उसे सेट कर सकते हैं: **सेटगि > ससि्टम > जेस्चर > उठाने पर आवाज़ शांत** पर टैप करें और उसे चालू करें।






यदि आप फ़ोन को उलटा करके इनकमगि कॉल को असवीकार करने में समर्थ होना चाहते हैं, तो **सेटगि > ससि्टम > जेस्चर > कॉल को असवीकार करने के लिए उलटा करें** पर टैप करें और उसे चालू पर स्वचि करें।

## FM रेडियो

रेडियो सुनने के लिए, आपको अपने फ़ोन से एक संगत हेडसेट कनेक्ट करना होगा। हेडसेट एंटीना का काम करता है।

## FM रेडियो सुनना

हेडसेट कनेक्ट करने के बाद, **FM रेडियो** पर टैप करें।

- रेडियो चालू करने के लिए  पर टैप करें।
- रेडियो स्टेशन ढूँढने के लिए  > **स्कैन करें** पर टैप करें।
- एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बदलने के लिए चैनल फ़्रीक्वेंसी वाली पंक्ति को बाएं या दाएं खसिकाएं।
- स्टेशन सहेजने के लिए  पर टैप करें।
- फ़ोन के स्पीकर का उपयोग करके रेडियो स्टेशन सुनने के लिए  पर टैप करें। हेडसेट को कनेक्ट रखें।
- रेडियो बंद करने के लिए  पर टैप करें।



**समस्या नविवरण युक्ति:** अगर रेडियो काम न कर रहा हो तो सुनिश्चि करें कि हेडसेट ठीक से कनेक्ट किया गया है।

## स्वचालति लेख सुधार

कीबोर्ड लेख सुधार का उपयोग करके तेज़ी से और कुशलता के साथ लेख संदेश लिखने का तरीका जानें।

## कीबोर्ड और शब्द सुझावों का उपयोग करें

जैसे-जैसे आप लिखते जाते हैं, आपका फ़ोन आपको शब्दों का सुझाव देता जाता है, ताकि आपको अधिक तेज़ी और सटीकता से लिखने में मदद मिले। हो सकता है सभी भाषाओं के लिए शब्द सुझाव उपलब्ध न हों।

जब आप कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं, तो आपका फ़ोन संभावित शब्दों का सुझाव देता है। जब सुझाव बार में आपका वांछित शब्द दिखाया जाए, तो उसे चुन लें। और सुझाव देखने के लिए, सुझाव पर टैप करें और दबाकर रखें।



**युक्त:** यदि सुझाया गया शब्द बोल्ड अक्षरों में चिह्नित है, तो आपका फ़ोन स्वचालित रूप से उसका उपयोग करके उससे आपके द्वारा लिखे गए शब्द को बदल देता है। यदि शब्द गलत है, तो कुछ और सुझाव देखने के लिए शब्द पर टैप करें और दबाकर रखें।

यदि आप नहीं चाहते हैं कि कीबोर्ड लिखने के दौरान शब्दों का सुझाव दे तो पाठ सुधार बंद कर दें। **सेटिंग > ससिटम > भाषाएं और इनपुट > वर्चुअल कीबोर्ड** पर टैप करें। आप जिस कीबोर्ड का सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, उसे चुनें। **लेख सुधार** टैप करें और उन पाठ सुधार वधियों को बंद कर दें जिनका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं।

## किसी शब्द को सही करें

यदि आप देखते हैं कि आपने किसी शब्द की वर्तनी गलत लिखी हुई है, तो उस पर टैप करके शब्द को ठीक करने के सुझाव देखें।

## वर्तनी परीक्षक बंद करें

**सेटिंग > ससिटम > भाषाएं और इनपुट > उन्नत > वर्तनी परीक्षक** पर टैप करें और **वर्तनी परीक्षक का उपयोग करें** को बंद करें।

## GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant चुनदा बाज़ारों और भाषाओं में ही उपलब्ध है। जहाँ भी Google Assistant उपलब्ध न हो, वहाँ उसकी जगह पर Google खोज उपलब्ध रहेगा। <https://support.google.com/assistant> पर उपलब्धता देखें। Google Assistant ऑनलाइन जानकारी खोजने, शब्दों और वाक्यों का अनुवाद करने, नोट और कैलेंडर वाले अपॉइंटमेंट बनाने जैसे काम करने में आपकी मदद कर सकता है। आप अपना फ़ोन लॉक होने पर भी Google Assistant का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, आपके नज़ी डेटा को एक्सेस करने से पहले Google Assistant आपको अपना फ़ोन अनलॉक करने कहेगा।

## Google Assistant कुंजी का उपयोग करना

Google Assistant की सेवाओं को एक्सेस करने के लिए अपने फ़ोन के किनारे पर दिए गए Google Assistant कुंजी का उपयोग करें:

- Google Assistant प्रारंभ करने के लिए कुंजी को एक बार दबाएं।

## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

- Google Assistant से बात करने के लिए कुंजी को दबाकर रखें. अपना प्रश्न पूछें और कुंजी दबाना छोड़ दें. आपको अपने फ़ोन के डिसप्ले पर Google Assistant का उत्तर दिखाई देगा.

अगर आपके देश या क्षेत्र में Google Assistant चलाने की सुविधा नहीं है, तो भी आप Google Assistant कुंजी का उपयोग कर सकते हैं:

- Google खोज खोलने के लिए एक बार कुंजी दबाएँ.
- Google वॉइस खोज सुविधा का उपयोग करने के लिए कुंजी को दबाकर रखें. अपना प्रश्न पूछें और कुंजी दबाना छोड़ दें. आपको अपने फ़ोन के डिसप्ले पर Google का उत्तर दिखाई देगा.

## Google Assistant कुंजी को बंद करना

Google Assistant कुंजी को बंद करने के लिए **सेटिंग** > **Google** > **खोज, Assistant और वॉइस** > **Google Assistant** पर टैप करें. स्क्रीन पर ऊपर, **Assistant** पर टैप करें, अपने डेविडिस का चयन करें और **Google Assistant** को बंद पर स्विच करें.

## स्क्रीनशॉट

### एक स्क्रीनशॉट बनाएं

स्क्रीनशॉट लेने के लिए, नोटफिकेशन फलक खोलें और स्थिति बार को नीचे की ओर खींचें. **स्क्रीन कैप्चर** पर टैप करें. आप **फोटो** में कैप्चर की गई छवियां देख सकते हैं.

कुछ ऐप्स और सुविधाओं का उपयोग करते समय स्क्रीनशॉट कैप्चर करना संभव नहीं होता.

## एक्सेस योग्यता

अपने फ़ोन का उपयोग आसान बनाने के लिए आप विभिन्न सेटिंग बदल सकते हैं.

### अक्षरों का आकार बढ़ाएं या घटाएं

क्या आप अपने फ़ोन पर बड़े आकार के अक्षर चाहते हैं?

1. **सेटिंग** > **एक्सेस योग्यता** पर टैप करें.
2. **अक्षरों का आकार** पर टैप करें. अक्षरों का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए अक्षरों के आकार का स्तर विकल्प का स्लाइडर खींचें.

## प्रदर्शन आकार बढ़ाएं या घटाएं

क्या आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद आइटमों का आकार छोटा या बड़ा करना चाहते हैं?


1. **सेटिंग** > **एक्सेस योग्यता** पर टैप करें.
2. **प्रदर्शन आकार** पर टैप करें और प्रदर्शन आकार समायोजित करने के लिए प्रदर्शन आकार का स्तर विकल्प का स्लाइडर खींचें.

## बैटरी लाइफ़

ज़रूरी बैटरी लाइफ़ प्राप्त करके अपने फ़ोन का अधिकाधिक लाभ उठाएं. कुछ ऐसे उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ़ोन पर पावर की बचत कर सकते हैं.

### बैटरी लाइफ़ बढ़ाएं

पावर की बचत करने के लिए:

1. बैटरी को हमेशा पूरी तरह चार्ज करें.
2. अनावश्यक ध्वनियों को म्यूट कर दें, जैसे कसिपर्श करने पर नकिलने वाली ध्वनियाँ. **सेटिंग** > **ध्वनि** > **उन्नत** पर टैप करें और अन्य ध्वनियाँ और कंपन के अंतर्गत, वे ध्वनियाँ चुनें जिन्हें आप रखना चाहते हैं.
3. लाउडस्पीकर की जगह वायर्ड हेडफ़ोन का उपयोग करें.
4. फ़ोन स्क्रीन को थोड़े समय के बाद बंद होने के लिए सेट करें. **सेटिंग** > **प्रदर्शन** > **उन्नत** > **प्रयोग में नहीं** पर टैप करें और समय चुनें.
5. **सेटिंग** > **प्रदर्शन** > **चमक स्तर** पर टैप करें. चमक समायोजित करने के लिए चमक स्तर के स्लाइडर को खींचें. सुनिश्चित करें कि **अनुकूलनीय रोशनी** अक्षम हो.
6. ऐप्स को पृष्ठभूमि में चलने से रोक दें: होम कुंजी  से ऊपर की ओर स्वाइप करें और आप जिस ऐप को बंद करना चाहते हैं उसे ऊपर की ओर स्वाइप करें.
7. **अडैप्टिव बैटरी** सक्षम करें. आप जिन ऐप्स का उपयोग अक्सर नहीं करते उनके लिए बैटरी सीमिति करें. इन ऐप्स के लिए नोटफिकेशन वलिंबति हो सकते हैं. **सेटिंग** > **बैटरी** > **अडैप्टिव बैटरी** पर टैप करें.
8. पावर सेवर चालू करें: **सेटिंग** > **बैटरी** > **बैटरी सेवर** पर टैप करें और **चालू** पर स्वचि करें.
9. स्थान सेवाओं का सोच-समझकर उपयोग करें: जब आपको स्थान सेवाओं की ज़रूरत न हो, तो उन्हें बंद कर दें. **सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** > **स्थान** पर टैप करें और **स्थान का उपयोग** अक्षम करें.
10. नेटवर्क कनेक्शन का सोच-समझकर उपयोग करें: ब्लूटूथ तभी चालू करें, जब उसकी ज़रूरत हो. इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन के बजाय वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करें. अपने फ़ोन को उपलब्ध वायरलेस नेटवर्क स्कैन करने से रोकें. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **वाई-फ़ाई** पर टैप करें और **वाई-फ़ाई** अक्षम करें. यदि आप संगीत सुन रहे हैं या फरि अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं और कॉल करना या कॉल प्राप्त करना नहीं चाहते, तो हवाई जहाज मोड चालू कर दें. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **हवाई जहाज मोड** पर टैप करें.




## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

हवाई जहाज मोड मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन बंद कर देता है और आपके डेटा की वायरलेस सुविधाओं को बंद कर देता है।

## 4 अपने मंत्रियों और परिवार के साथ कनेक्ट करें


### कॉल

#### एक कॉल करें

1.  पर टैप करें.
2. कोई नंबर लखें, या  पर टैप करें और वह संपर्क चुनें, जसि आप कॉल करना चाहते हैं।
3.  पर टैप करें. यदि आपने दूसरा SIM भी डाला हुआ है, तो दोनों में से किसी भी SIM से कॉल करने के लिए उससे संबंधित आइकन पर टैप करें.

#### किसी कॉल का उत्तर दें

जब फ़ोन बजता है, तो उत्तर देने के लिए ऊपर स्वाइप करें.

 **युक्त:** क्या आप अपने फ़ोन को मौन मोड में नहीं रखना चाहते, लेकिन अभी उत्तर देने में असमर्थ हैं? इनकमिंग कॉल को मौन करने के लिए, वॉल्यूम कम करें कुंजी दबाएं. आप अपना फ़ोन पक़ि करते समय रिंगटोन को म्यूट करने के लिए भी उसे सेट कर सकते हैं: **सेटिंग > सस्टिम > जेस्चर > उठाने पर आवाज़ शांत** पर टैप करें और उसे चालू करें. यदि आप फ़ोन को उलटा करके इनकमिंग कॉल को अस्वीकार करने में समर्थ होना चाहते हैं, तो **सेटिंग > सस्टिम > जेस्चर > कॉल को अस्वीकार करने के लिए उलटा करें** पर टैप करें और उसे चालू पर स्वचि करें.


#### कॉल को अस्वीकार करें

कॉल अस्वीकार करने के लिए नीचे स्वाइप करें.

### संपर्क

अपने मंत्रियों और परिवार के सदस्यों के फ़ोन नंबर सहेजें और व्यवस्थित करें.

#### कॉल इतिहास से कोई संपर्क सहेजें

1. **फ़ोन** में, कॉल इतिहास देखने के लिए  पर टैप करें.
2. उस नंबर पर टैप करें, जसि आप सहेजना चाहते हैं.
3. इसे तब चुनें, जब आप **नया संपर्क बनाना** या **किसी संपर्क में जोड़ना** चाहते हों.
4. संपर्क जानकारी टाइप करें और **सहेजें** पर टैप करें.

## कोई संपर्क जोड़ें

1. **संपर्क** > **+** पर टैप करें.
2. जानकारी भरें.
3. **सहेजें** पर टैप करें।

## संपर्क आयात या नर्यात करें

**संपर्क** > **≡** > **⚙** **सेटिंग** > **आयात करें/नर्यात करें** पर टैप करें.

## संदेश भेजें

लेख संदेशों के ज़रूयि अपने मतिरों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहें.

## एक संदेश भेजें

1. **संदेश** पर टैप करें।
2. **चैट प्रारंभ करें** पर टैप करें.
3. कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, प्राप्तकर्ता बॉक्स में उनका नंबर टाइप करें. कोई संपर्क जोड़ने के लिए, उनके नाम टाइप करना शुरू करें और संपर्क पर टैप करें.
4. अधिकि प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने के लिए, **समूह वार्तालाप प्रारंभ करें** पर टैप करें. सभी प्राप्तकर्ता चुनने के बाद, > पर टैप करें.
5. लेख संदेश बॉक्स में अपना संदेश लिखें.
6. **➤** पर टैप करें.



**युक्ति:** यदि आप संदेश में कोई फ़ोटो भेजना चाहते हैं, तो **फ़ोटो** पर टैप करें > जिस फ़ोटो को आप साझा करना चाहते हैं, उस पर टैप करें और **◀** पर टैप करें. **संदेश** चुनें.

## मेल

आप चलते-फरिते अपने फ़ोन से मेल भेज सकते हैं.

## एक मेल खाता जोड़ें

पहली बार Gmail ऐप का उपयोग करने पर, आपसे अपना ईमेल खाता सेट अप करने को कहा जाता है.

1. **Gmail** पर टैप करें.
2. आप अपने Google खाते से कनेक्ट पता चुन सकते हैं या फिर **एक ईमेल पता जोड़ें** पर टैप कर सकते हैं.
3. सभी खाते जोड़ने के बाद, **मुझे GMAIL पर ले जाएं** पर टैप करें.

## मेल भेजें

1. Gmail पर टैप करें.
2. ⊕ पर टैप करें.
3. प्रती बॉक्स में, एक पता टाइप करें या : >
4. संपर्क से जोड़ें पर टैप करें.
5. ► पर टैप करें.
4. संदेश का विषय और फरि मेल टाइप करें.

## सामाजिक बनें

क्या आप अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों से कनेक्ट करना और उनके साथ चीजें साझा करना चाहते हैं? सामाजिक ऐप्स के साथ, आप अपने मत्रिों से जुड़ी ताज़ा जानकारी पा सकते हैं.

## सामाजिक ऐप्स

अपने मत्रिों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में बने रहने के लिए, अपनी झटपट मेसेज सेवा, साझाकरण और सामाजिक नेटवर्कगि सेवाओं में साइन इन करें. अपनी होम स्क्रीन से वह सेवा चुनें, जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं. सामाजिक ऐप्स Google Play स्टोर में उपलब्ध हैं. उपलब्ध सेवाओं में फ़रक हो सकता है.


## 5 कैमरा

### कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें

जब आपके फ़ोन में ही यादगार पलों को कैद करने की सुविधा हो, तो अलग से कैमरा ले जाने की क्या ज़रूरत है? अपने फ़ोन के कैमरे के साथ, आप आसानी से फ़ोटो ले सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।



#### फ़ोटो लें

स्पष्ट और जीवंत फ़ोटो शूट करें – अपने फ़ोटो एल्बम में यादगार पलों को कैप्चर करें।

1. **कैमरा** पर टैप करें।
2. लक्ष्य बांधें और फ़ोकस करें।
3.  पर टैप करें।







#### सेल्फ़ी लें

बेजोड़ सेल्फ़ी लेना चाहते हैं? सेल्फ़ी लेने के लिए अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे का उपयोग करें।

1. **कैमरा** पर टैप करें।
2. फ्रंट कैमरे पर स्विच करने के लिए  पर टैप करें।
3. लक्ष्य बांधें और फ़ोकस करें।
4.  पर टैप करें।

#### बोथी लें

शानदार सेल्फ़ी लेने के अलावा, आप अपने फ़ोन के कैमरे से वभिजति-स्क्रीन वाली एक फ़ोटो ले सकते हैं। फ्रंट और रियर, दोनों कैमरों का एक साथ उपयोग करें।

1. **कैमरा** >  पर टैप करें और  पर टैप करें।
2. वभिजति-स्क्रीन फ़ोटो लेने के लिए,  **ड्युअल** पर टैप करें। या, चित्र-में-चित्र फ़ोटो लेने के लिए,  पर टैप करें।
3. लक्ष्य बांधें और फ़ोकस करें।
4.  पर टैप करें।
5. पूर्ण स्क्रीन मोड पर वापस जाने के लिए,  **एकल** पर टैप करें।




**युक्ति:** जब आप चित्र-में-चित्र फ़ोटो लेते हैं या चित्र-में-चित्र वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और छोटे चित्र को कहीं और जाना चाहते हैं, तो उस पर टैप करके रखें और उसे खींचकर उस जगह पर ले जाएँ जहाँ आप उसे रखना चाहते हैं।

## पैनोरमा लेना


1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. ☰ > **पैनोरमा** पर टैप करें.
3. ○ पर टैप करें और अपने फ़ोन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

## Google लेन्स का उपयोग करना

Google लेन्स के ज़रिए आप अपने कैमरे के व्यूफ़ाइंडर का उपयोग करके चीज़ों को पहचानने, पाठ की प्रतिलिपि बनाने और उसी तरह के उत्पाद खोजने जैसे काम कर सकते हैं.

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. ☰ >  पर टैप करें.
3. आप चिसि चीज़ को पहचानना चाहते हैं उसकी ओर कैमरा दिखाएं और डिसिप्ले पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.



**युक्त:** आप अपनी पहले से ली गई फ़ोटो में भी Google लेन्स का उपयोग कर सकते हैं. **फ़ोटो** पर टैप करें, उस फ़ोटो पर टैप करें और  पर टैप करें.





## वीडियो रिकॉर्ड करें

### वीडियो रिकॉर्ड करें

1. **कैमरा** पर टैप करें. टैप करें.
2. वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में बदलने के लिए, **वीडियो** पर टैप करें. 4. रिकॉर्डिंग रोकने के लिए ⊙ पर टैप करें.
3. रिकॉर्डिंग प्रारंभ करने के लिए, ○ **वीडियो** पर 5. कैमरा मोड पर वापस जाने के लिए, **फ़ोटो** पर टैप करें.

### बोथी वीडियो रिकॉर्ड करें

आप अपने फ़ोन के साथ वभिजति-स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. फ्रंट और रयिर, दोनों कैमरों का एक साथ उपयोग करें.

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में बदलने के लिए, **वीडियो** >  पर टैप करें.  पर टैप करें.
3. वभिजति-स्क्रीन वाला वीडियो लेने के लिए  **ड्युअल** पर टैप करें. या, चत्तिर-में-चत्तिर वीडियो लेने के लिए  **P-I-P** पर टैप करें.
4. रिकॉर्डिंग प्रारंभ करने के लिए, ○ पर टैप करें.

## अपने कैमरे का पेशेवर की तरह उपयोग करें

अपनी फ़ोटो की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, अपने कैमरे में वभिन्न मोड का उपयोग करें।

### अपने कैमरे की सेटिंग के बारे में जानें

कैमरा ऐप में, प्रत्येक सेटिंग के बारे में अधिक जानने के लिए ≡ पर टैप करें।

### अपने फ़ोटो की पृष्ठभूमिको धुंधला करें

यदि फ़ोटो लेने के बाद अपनी फ़ोटो का फ़ोकस वाला क्षेत्र बदलने में सक्षम होना चाहते हैं और अपने फ़ोटो की पृष्ठभूमिको धुंधला करना चाहते हैं, तो फ़ोटो लेते समय बोके प्रभाव का उपयोग करें। सुपर पोर्ट्रेट संपादक के साथ अपना फ़ोटो संपादित करें और वभिन्न पृष्ठभूमि धुंधला प्रभाव आजमाएं। आप सेल्फी के साथ बोके प्रभाव का भी उपयोग कर सकते हैं।

1. कैमरा > पोर्ट्रेट पर टैप करें।
2. कैमरे को लक्ष्य करें, फ़ोकस करें और ○ पर टैप करें।
3. वह फ़ोटो चुनें जो आपने अभी ली है, आप उसे नीचे दाएं कोने में देख सकते हैं।
4. अपना फ़ोटो संपादित करने के लिए ≡ > पोर्ट्रेट संपादक पर टैप करें।

### ब्यूटी शॉट लें

लंबी रात के बाद भी आप अपने आप में सबसे सुंदर देख सकते/सकती हैं। ब्यूटी फ़िल्टर का उपयोग करके सेल्फी लें।

1. कैमरा > 📸 पर टैप करें।
2. पोर्ट्रेट > 📸 > 📸 पर टैप करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्लाइडर को खसिकाएं।
3. ○ पर टैप करें।

### नाइट शॉट लें

रात में या कम रोशनी वाली परस्थितियों में उच्च गुणवत्ता के फ़ोटो लेने के लिए, नाइट मोड पर स्विच करें। कैमरा > नाइट पर टैप करें और अपने फ़ोन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

### वाइड-एंगल फ़ोटो लें


सुंदर लैंडस्केप फ़ोटो लेने के लिए, वाइड-एंगल मोड के स्विच को चालू करें। कैमरा > 📸 पर टैप करें। सामान्य मोड पर वापस जाने के लिए, > 📸 पर टैप करें।

## कैमरे को प्रो मोड पर सेट करें

**कैमरा** > **प्रो** पर टैप करें.


## टाइमर के साथ फोटो खींचें

क्या आप शूट करने में भी समय चाहते हैं? टाइमर आजमाएं.

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2.  पर टैप करें. यह बटन टाइमर की सेटिंग दिखाता है. इसे बदलने के लिए दोबारा टैप करें.
3. टाइमर की अवधि चुनें.
4.  पर टैप करें.

## बेहतरीन गुणवत्ता के फोटो खींचना

आप अपने पीछे वाले कैमरे के साथ, 48 MP के फोटो ले सकते हैं.

1. कैमरा >  > **फोटो रजिऑल्यूशन** > **पीछे के कैमरे की फोटो** पर टैप करें.
2. **48MP** का चयन करें.

जब आप **48MP** का चयन करते हैं, तो कुछ कैमरा सुविधाएं अक्षम हो जाती हैं.


## अपने फोटो और वीडियो मेमोरी कार्ड में सहेजें

यदि आपके फोन में मेमोरी कार्ड है और आपकी फोन मेमोरी में ज्यादा जगह नहीं है, तो आप खींचे गए फोटो और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को मेमोरी कार्ड में सहेज सकते हैं.



**युक्त:** सबसे अच्छी गुणवत्ता का वीडियो बनाने के लिए, अपनी फोन मेमोरी में वीडियो रिकॉर्ड करें.

## सहेजे गए फोटो और वीडियो का स्थान बदलें

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2.  > **सेटिंग** > **डेटा संग्रहण** पर टैप करें.

## आपके फ़ोटो और वीडियो

### अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें

उन खास पलों को फिर से जीना चाहते हैं? अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें.

**फ़ोटो** पर टैप करें.

### वीडियो चलाएं

**फ़ोटो** पर टैप करें और जिस वीडियो को चलाना चाहते हैं, उस पर टैप करें.



**युक्त:** प्लेबैक रोकने के लिए **||** पर टैप करें. जारी रखने के लिए, **▶** पर टैप करें.

### वीडियो को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड या रविाइंड करें

वीडियो को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड या रविाइंड करने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से में स्थिति स्लाइडर को दाएं या बाएं खींचें.

### अपने कंप्यूटर पर अपने फ़ोटो और वीडियो कॉपी करें

क्या आप अपने फ़ोटो या वीडियो किसी बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? उन्हें अपने कंप्यूटर पर ले जाएं.

अपने फ़ोटो और वीडियो कंप्यूटर पर कॉपी करने या स्थानांतरित करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के फ़ाइल मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं.

अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये कंप्यूटर से कनेक्ट करें. USB कनेक्शन प्रकार सेट करने के लिए, नोटफिकेशन फलक खोलें और USB नोटफिकेशन पर टैप करें.

### अपने फ़ोटो और वीडियो साझा करें

आप अपने फ़ोटो और वीडियो तेज़ी व आसानी से साझा करके उन्हें अपने मित्रों और परिवार को दिखा सकते हैं.

1. **फ़ोटो**, में, उस फ़ोटो पर टैप करें, जिस आप साझा करना चाहते हैं और **◀** पर टैप करें।
2. यह चुनें कि आप किस तरह फ़ोटो या वीडियो साझा करना चाहते हैं.


## 6 इंटरनेट और कनेक्शन

### वाई-फ़ाई सक्रिय करें

वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करने की तुलना में अधिक तेज़ और कम खर्चीला होता है। यदि वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन दोनों उपलब्ध हों, तो आपका फ़ोन वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करता है।

### वाई-फ़ाई चालू करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **वाई-फ़ाई** पर टैप करें।
2. वाई-फ़ाई **चालू** करें।
3. आप जिस कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं उसे चुनें।

जब स्क्रीन के ऊपर स्थिति स्थितिबार में  दिखाई दे तो समझ लें कि आपका वाई-फ़ाई कनेक्शन सक्रिय है।

**महत्वपूर्ण:** अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है।



**युक्ति:** यदि आप सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध न होने पर स्थान ट्रैक करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, जब आप घर के अंदर या ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच हों, तब वाई-फ़ाई चालू करके अपनी स्थितिकी सटीकता सुधारें।

<sup>1</sup> नोट: कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.35 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।


**महत्वपूर्ण:** अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है।

### मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें

#### मोबाइल डेटा कनेक्शन बंद करें

स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें **मोबाइल डेटा** पर टैप करें और **मोबाइल डेटा** को चालू पर स्वचि करें।

#### मोबाइल डेटा कनेक्शन बंद करें

स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें  **मोबाइल डेटा** पर टैप करें और **मोबाइल डेटा** को बंद पर स्वचि करें।

## रोमिंग के दौरान मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें

सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > मोबाइल नेटवर्क पर टैप करें और रोमिंग चालू पर स्विच करें.<sup>1</sup>



**युक्ति:** अपने डेटा उपयोग पर नज़र रखने के लिए, सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > डेटा उपयोग पर टैप करें.

## हवाई जहाज़ मोड चालू करें

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > उन्नत पर टैप करें.
2. हवाई जहाज़ मोड चालू करें.

हवाई जहाज़ मोड मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन बंद कर देता है और आपके डेटा का वायरलेस सुविधाओं को बंद कर देता है. नरिदेशों का और दी गई सुरक्षा आवश्यकताओं का उदाहरण के लिए किसी भी एयरलाइन का और लागू कानूनों तथा वनियमों का पालन करें. जहां अनुमति हो, आप किसी Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हवाई जहाज़ मोड में इंटरनेट ब्राउज़ करना, या ब्लूटूथ साझाकरण चालू करना.

<sup>1</sup> रोमिंग के दौरान इंटरनेट से कनेक्ट करने पर, विशेष रूप से जब आप विदेश में हों, डेटा लागतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

## वेब ब्राउज़ करें

### अपने फ़ोन का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को वेब से कनेक्ट करें

आप यात्रा के दौरान बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं. अपने फ़ोन को वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट बनाकर अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके अपने लैपटॉप या अन्य डेटा डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस करें.

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > हॉटस्पॉट और टैप करें.
2. वाई-फ़ाई पर अपना मोबाइल डेटा कनेक्शन साझा करने के लिए वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट को. USB कनेक्शन का उपयोग करने के लिए USB टैप करें को या ब्लूटूथ का उपयोग करने के लिए ब्लूटूथ टैप करें को चालू करें.

दूसरा डेटा डिवाइस आपके डेटा प्लान के डेटा का उपयोग करता है, जिसके लिए आपसे डेटा ट्रैफ़िक शुल्क लिया जा सकता है. उपलब्ध और लागतों की जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

## ब्राउज़िंग शुरू करें

कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं – आप अपने फ़ोन पर आसानी से इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं। ताज़ा समाचार पाएं और अपनी पसंदीदा वेबसाइटों पर जाएं। आप इंटरनेट पर मौजूद वेब पृष्ठ देखने के लिए अपने फ़ोन पर ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं।

1. **Chrome** पर टैप करें।
2. वेब पता टाइप करें और → पर टैप करें।



**सुझाव:** यदि आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता आपसे डेटा स्थानांतरण के लिए कोई नशिचति शुल्क नहीं लेता है, तो डेटा लागत बचाने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करें।

## वेब खोजें

Google खोज के साथ वेब और बाहरी दुनिया एक्सप्लोर करें। अपने खोज शब्द लखिने के लिए आप कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

Chrome में,

1. खोज बार पर टैप करें।
2. खोज बॉक्स में अपना खोज शब्द लखिं।
3. → पर टैप करें।

आप प्रस्तावित मलिनानों से भी कोई खोज शब्द चुन सकते हैं।

## अपने डेटा प्लान का कुशलता से उपयोग करें

यदि आप डेटा उपयोग की लागतों को ले कर चतिति हैं, तो आपका फ़ोन आपकी मदद के लिए पृष्ठभूमि में चल रहे कुछ ऐप्स को डेटा भेजने या प्राप्त करने से रोक देता है।

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **डेटा उपयोग** > **डेटा बचतकर्ता** पर टैप करें।
2. **डेटा बचतकर्ता** का स्वचि **चालू** करें।

## BLUETOOTH®

आप फ़ोन, कंप्यूटर, हेडसेट और कार कटि जैसे अन्य संगत डविाइस के साथ वायरलेस रूप से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने फ़ोटो संगत फ़ोन या अपने कंप्यूटर को भी भेज सकते हैं।

## किसी ब्लूटूथ डवाइस से कनेक्ट करें

आप अपना फ़ोन कई उपयोगी ब्लूटूथ डवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वायरलेस हेडसेट (अलग से खरीदा जा सकता है) की सहायता से आप हैंड्स-फ़्री रहकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं – आप अपना कोई भी काम जारी रख सकते हैं, जैसे कॉल के दौरान अपने कंप्यूटर पर काम करना। फ़ोन को किसी ब्लूटूथ डवाइस से कनेक्ट करना युग्मन कहलाता है।

1. सेटिंग > कनेक्टेड डवाइस > कनेक्शन प्राथमिकताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें।
2. ब्लूटूथ का स्वचि चालू करें।
3. सुनिश्चित करें कि अन्य डवाइस भी चालू है। आपको दूसरे डवाइस से युग्मन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। विवरण के लिए, दूसरे डवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।
4. अपने फ़ोन और डवाइस को युग्मन करने के लिए, खोजे गए ब्लूटूथ डवाइस की सूची पर वांछित डवाइस पर टैप करें।
5. आपको एक पासकोड टाइप करना पड़ सकता है। विवरण के लिए, दूसरे डवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।

चूंकि ब्लूटूथ वायरलेस प्रौद्योगिकी वाले डवाइस संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिरेखा में होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि, ब्लूटूथ डवाइस एक दूसरे से 10 मीटर (33 फुट) की दूरी पर होने चाहिए। दीवार जैसी रुकावटों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डवाइस द्वारा पैदा किए जाने वाले व्यवधान के कारण कनेक्शन प्रभावित हो सकता है।

Bluetooth चालू होने पर युग्मन डवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं। अन्य डवाइस आपके फ़ोन का पता केवल तभी लगा सकेंगे, जब ब्लूटूथ सेटिंग दृश्य खुला हो।

अज्ञात डवाइस के साथ न तो युग्मन करें न उनके कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें। इससे आपके फ़ोन को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

## ब्लूटूथ का उपयोग करके अपनी सामग्री साझा करें

अगर आप अपनी फ़ोटो या अन्य सामग्री को किसी मॉडरि से साझा करना चाहते हैं, तो ब्लूटूथ का उपयोग करके उन्हें अपने मॉडरि को भेजें।


आप एक बार में एक से अधिक ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लूटूथ हेडसेट का उपयोग करते समय, आप अभी भी अन्य फ़ोन को सामग्री भेज सकते हैं।

1. सेटिंग > कनेक्टेड डवाइस > कनेक्शन प्राथमिकताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें।
2. सुनिश्चित करें कि दोनों फ़ोन पर ब्लूटूथ चालू है और फ़ोन एक दूसरे के लिए दृश्यमान है।
3. आप जिस सामग्री को भेजना चाहते हैं उस पर जाएं और <img alt="share icon" data-bbox="218 845 235 862"/> > ब्लूटूथ पर टैप करें।
4. प्राप्त ब्लूटूथ डवाइस की सूची में अपने मॉडरि के फ़ोन पर टैप करें।
5. यदि दूसरे फ़ोन के लिए पासकोड की ज़रूरत है, तो पासकोड टाइप करें या स्वीकार करें और टैप करें। युग्मन करें।

पासकोड का उपयोग सिर्फ़ तभी किया जाता है, जब आप पहली बार किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं।

## युग्मन नकालें

यदि अब आपके पास वह डिविडस नहीं है, जिसके साथ आपने अपना फोन युग्मन किया था, तो आप वह युग्मन नकाल सकते हैं।

1. **सेटिंग** > **कनेक्टेड डिविडस** > **पूरव में कनेक्टेड डिविडस** पर टैप करें.
2. डिविडस नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
3. **भूल जाएं** पर टैप करें.

## VPN


अपनी कंपनी के संसाधन, जैसे कि इंटरनेट या कॉर्पोरेट मेल एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) कनेक्शन की जरूरत हो सकती है, या फिर आप व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किसी VPN सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

अपने VPN कॉन्फ़िगरेशन के विवरण हेतु अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक से संपर्क करें या अतिरिक्त जानकारी के लिए अपनी VPN सेवा की वेबसाइट पर नज़र डालें।


### एक सुरक्षित VPN कनेक्शन का उपयोग करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **उन्नत** > **VPN** पर टैप करें.
2. एक VPN प्रोफ़ाइल जोड़ने के लिए, **+** पर टैप करें.
3. अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक या VPN सेवा के निर्देशानुसार अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी टाइप करें.

### VPN प्रोफ़ाइल संपादित करें

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
2. जानकारी को आवश्यकतानुसार बदलें.

### VPN प्रोफ़ाइल हटाएं

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
2. **VPN भूल गए** पर टैप करें.

## 7 अपना दिन व्यवस्थित करें

### दैनिक और समय

समय का हिसाब रखें – अपने फ़ोन का घड़ी और अलार्म घड़ी के रूप में उपयोग करने का तरीका जानें और साथ ही अपने अपॉइंटमेंट, कार्यों और शेड्यूल को अपडेट रखने का तरीका जानें.

### दैनिक और समय सेट करें

सेटिंग > सस्टिम > दैनिक और समय पर टैप करें.

### समय और दैनिक स्वचालित रूप से अपडेट करें

आप अपने फ़ोन को समय, दैनिक और समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए सेट कर सकते हैं. स्वचालित अपडेट एक नेटवर्क सेवा है और आपके क्षेत्र या नेटवर्क सेवा प्रदाता पर निर्भर करते हुए हो सकता है आपके लिए उपलब्ध न हो.

1. सेटिंग > सस्टिम > दैनिक और समय पर टैप करें.
2. स्वचालित दैनिक और समय को चालू पर स्वचि करें.
3. स्वचालित समय क्षेत्र को चालू पर स्वचि करें.

### घड़ी को 24-घंटे के प्रारूप में बदलें




सेटिंग > सस्टिम > दैनिक और समय पर टैप करें और 24-घंटे के प्रारूप का उपयोग करें को चालू पर स्वचि करें.

### अलार्म घड़ी

आपकी घड़ी सिर्फ़ अलार्म के लिए नहीं है – जाने की आप इसके साथ और क्या-क्या कर सकते हैं.

### अलार्म सेट करें

आप अपने फ़ोन का अलार्म घड़ी के रूप में उपयोग कर सकते हैं.

1. घड़ी >  अलार्म पर टैप करें.
2. अलार्म जोड़ने के लिए,  पर टैप करें.
3. अलार्म संशोधित करने के लिए, उसे टैप करें. अलार्म को कुछ खास दिनों पर दोहराने हेतु सेट करने के लिए  पर नशान लगाएं और सप्ताह के दिनों को हाइलाइट करें.

## अलार्म बंद करें

अलार्म बजने पर आप उसे दाईं ओर स्वाइप करें.

## कैलेंडर

समय का हिसाब रखें – अपने अपॉइंटमेंट, कार्य और शेड्यूल अपडेट रखने का तरीका जानें.

### कैलेंडर प्रबंधित करें

**कैलेंडर** > ≡ टैप करें और फिर चुनें कि आप किस प्रकार का कैलेंडर देखना चाहते हैं.

जब भी आप अपने फ़ोन में कोई खाता जोड़ते हैं, तो कैलेंडर स्वचालित रूप से जोड़ जाते हैं. कैलेंडर के साथ एक नया खाता जोड़ने के लिए, ऐप मेनू पर जाएँ और **सेटिंग** > **उपयोगकर्ता और खाते** > **खाता जोड़ें** टैप करें.

### एक इवेंट जोड़ें

कोई अपॉइंटमेंट या इवेंट याद रखने के लिए, उसे अपने कैलेंडर में जोड़ें.

1. **कैलेंडर** में, + पर टैप करें और एक प्रवर्षित प्रकार चुनें.
2. वांछित विवरण टाइप करें और समय सेट करें.
3. इवेंट को कुछ खास दिनों पर दोहराने के लिए, **अधिक विकल्प** > **नहीं दोहराया जाता** पर टैप करें और यह चुनें कि इवेंट कतिनी बार दोहराया जाएगा.
4. रमिाइंडर समय संपादित करने के लिए, रमिाइंडर समय पर टैप करें और उस समय का चयन करें जो आप चाहते हैं.



**सुझाव:** कोई इवेंट संपादित करने के लिए, इवेंट और ✎ पर टैप करके विवरण संपादित करें.

### कोई अपॉइंटमेंट हटाएं

1. इवेंट पर टैप करें.
2. ⋮ > **हटाएं** पर टैप करें.

## 8 मानचित्र

### स्थान ढूँढें और दिशानिर्देश प्राप्त करें

#### कोई स्थान ढूँढें

Google मानचित्र की मदद से विशिष्ट स्थान और व्यवसाय ढूँढें.

1. मानचित्र पर टैप करें.
2. खोज बार में खोज शब्द, जैसे कसिड़क का पता या स्थान का नाम लखें.
3. लखते समय प्रस्तावित मिलानों की सूची से एक आइटम चुनें या खोजने के लिए  $\mathcal{Q}$  पर टैप करें.


स्थान मानचित्र पर दिखाया जाता है. यदि खोज का कोई परिणाम नहीं मिलता, तो सुनिश्चित करने की आपके खोज शब्दों की वर्तनी सही है.

#### अपना मौजूदा स्थान देखें

मानचित्र >  पर टैप करें.

### किसी स्थान तक जाने के दिशानिर्देश प्राप्त करें

पैदल यात्रा, ड्राइवगि या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के दिशानिर्देश प्राप्त करें – अपने मौजूदा स्थान या किसी अन्य स्थान का उपयोग आरंभ बिंदु के रूप में करें.

1. मानचित्र पर टैप करें और खोज पट्टी में अपना गंतव्य दर्ज करें.
2. दिशाएं टैप करें. हाइलाइट किए गए आइकन परिवहन का माध्यम दर्शाता है, उदाहरण के लिए . माध्यम बदलने के लिए, खोज पट्टी के अंतर्गत नया माध्यम चुनें.
3. यदि आप अपने मौजूदा स्थान को प्रारंभ बिंदु नहीं बनाना चाहते, तो अपने स्थान पर टैप करके एक नए प्रारंभ बिंदु की खोज करें.
4. नेविगेशन प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करें पर टैप करें.

मार्ग मानचित्र पर दिखाया जाता है और साथ ही इसका अनुमान भी दिखाया जाता है कि वहां तक पहुंचने में कतिना समय लगेगा. वस्तुतः दिशानिर्देश देखने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें.

## मानचित्र डाउनलोड और अपडेट करें

### मानचित्र डाउनलोड करें

यात्रा के पहले अपने फ़ोन पर मानचित्र सहेजें, ताकि आप यात्रा के दौरान बिना इंटरनेट कनेक्शन के मानचित्र ब्राउज़ कर सकें।

1. मानचित्र > ≡ > ऑफ़लाइन मैप्स > अपना स्वयं का मैप चुनें पर टैप करें।
2. मानचित्र पर मौजूद क्षेत्र चुनकर डाउनलोड करें पर टैप करें।

### कोई मौजूदा मानचित्र अपडेट करें

1. मानचित्र > ≡ > ऑफ़लाइन मैप्स और मानचित्र के नाम पर टैप करें।
2. अपडेट करें पर टैप करें।

If the icon ≡ is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.



**यूक्ति:** आप अपने फ़ोन को इस भी तरह सेट कर सकते हैं कि वह स्वचालित रूप से मैप अपडेट करे। मानचित्र > ≡ > ऑफ़लाइन मैप्स > ⚙ पर टैप करें और ऑफ़लाइन मैप्स स्वचालित रूप से अपडेट करें पर, और ऑफ़लाइन मैप्स स्वचालित रूप से डाउनलोड करें को चालू पर स्वचि करें।

## स्थान सेवाओं का उपयोग करें

मानचित्र का उपयोग करके पता लगाएं कि आप कहां पर हैं और अपना स्थान आपके द्वारा खींचे जाने वाले फ़ोटो में अनुलग्न करें। अगर सैटेलाइट या नेटवर्क तकनीक के ज़रिये आपके स्थान का पता लगाया जा सकता है, तो फ़ोटो या वीडियो के साथ स्थान जानकारी संलग्न की जा सकती है। अगर आप कोई ऐसा फ़ोटो या वीडियो साझा करते हैं, जिसमें स्थान जानकारी समाहित है, तो उस फ़ोटो या वीडियो देखने वाले लोगों को वह स्थान जानकारी दिखाई जा सकती है। कुछ ऐप्स आपको सेवाओं की अपेक्षाकृत वसित श्रृंखला प्रदान करने के लिए आपकी स्थान जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

### स्थान सेवाएं चालू करें

आपका फ़ोन एक सैटेलाइट पोज़िशनिंग सिस्टम, वाई-फ़ाई या नेटवर्क (सेल ID) आधारित पोज़िशनिंग का उपयोग करके मानचित्र पर आपका स्थान दिखाता है।

स्थान जानकारी की उपलब्धता, सटीकता और पूर्णता उदाहरण के लिए आपके स्थान, आपके आस-पास के स्थान और तृतीय पक्ष स्रोतों पर निर्भर करती है और सीमिति भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है इमारतों या भूमिगत क्षेत्रों में स्थान जानकारी उपलब्ध न हो। स्थिति निर्धारण वधियों से संबंधित गोपनीयता जानकारी के लिए, <http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध HMD Global गोपनीयता नीति देखें।

## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

कुछ सैटेलाइट पोज़िशनिंग सिस्टम्स को मोबाइल नेटवर्क के ज़रिये अल्प मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हो सकती है। यदि आप डेटा लागतों से बचना चाहते हैं, उदाहरण के लिए यात्रा के दौरान, तो आप अपनी फ़ोन सेटिंग में जा कर मोबाइल डेटा कनेक्शन बंद कर सकते हैं।

सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध न होने के पर वाई-फ़ाई पोज़िशनिंग सटीकता बढ़ाती है, खासतौर पर जब आप घर के अंदर या फ़रि ऊंची-ऊंची इमारतों की बीच हों। यदि आप किसी ऐसे स्थान में हैं, जहां वाई-फ़ाई के उपयोग पर पाबंदी है, तो आप अपनी फ़ोन सेटिंग में जा कर वाई-फ़ाई बंद कर सकते हैं।

सेटिंग > सुरक्षा और स्थान पर टैप करें और स्थान के स्वचि को चालू करें.

## 9 ऐप, अद्यतन और बैकअप

### GOOGLE PLAY से ऐप प्राप्त करें

Google Play के साथ आप अपने Android फ़ोन की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं – क्योंकि यहाँ आपके मनोरंजन के लिए ऐप्स, संगीत, फ़िल्में और पुस्तकें हमेशा उपलब्ध होती हैं।

#### अपने फ़ोन पर Google खाता जोड़ें

1. **सेटिंग** > **खाते** > **खाता जोड़ें** > **Google** पर टैप करें. यदि आपसे कहा जाए, तो अपनी डेविडस लॉक पद्धति की पुष्टि करें.
2. अपने Google खाते के क्रेडेंशियल टाइप करें और **अगला** पर टैप करें, या नया खाता बनाने के लिए **खाता बनाएं** पर टैप करें.
3. अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

#### ऐप्स डाउनलोड करें

अपने फ़ोन की क्षमता को पहचानें – Google Play स्टोर पर आपके लिए ऐसे हजारों ऐप्स मौजूद हैं, जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं.<sup>1</sup>

1. **Play स्टोर** पर टैप करें.
2. ऐप्स ढूँढने के लिए खोज बार पर टैप करें या अपनी अनुशंसाओं से ऐप्स चुनें.
3. ऐप वर्णन में, ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए **इंस्टॉल करें** पर क्लिक करें.

अपने ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर जाएँ और स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें.

<sup>1</sup> Google Play सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके फ़ोन पर एक Google खाता जोड़ना ज़रूरी है. शलक Google Play में उपलब्ध कुछ सामग्री पर लगाए जा सकते हैं. भुगतान पद्धति जोड़ने के लिए, **Play स्टोर** > **मेनू** > **खाता** > **भुगतान पद्धतियाँ** पर टैप करें. Google Play से सामग्री खरीदते समय भुगतान पद्धति के स्वामी की अनुमति लेना न भूलें.

#### अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें

ताज़ा रुझानों से अवगत रहें – अपने फ़ोन के लिए नए और एनहांस्ड सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने फ़ोन सॉफ़्टवेयर और ऐप्स को वायरलेस के ज़रिये अपडेट करें. सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार आ सकता है.

## उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें

अपडेट उपलब्ध है या नहीं यह देखने के लिए **सेटिंग** > **सस्टिम** > **उन्नत** > **सस्टिम अपडेट** > **अपडेट की जांच करें** पर टैप करें.

जब आपका फ़ोन आपको किसी अपडेट के उपलब्ध होने की सूचना दे, तो अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले नर्देशों का पालन करें. यदि आपकी फ़ोन मेमोरी कम हो गई है, तो आपको अपने ऐप्स, फ़ोटो या अन्य सामग्री मेमोरी कार्ड पर ले जानी होगी.

**चेतावनी:** यदि आप सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करते हैं, तो अपने डेटा से आपातकालीन कॉल भी नहीं कर सकेंगे. आपको इंस्टॉलेशन पूरा होने और डेटा के फेरि से चालू होने तक प्रतीक्षा करनी होगी.

अपडेट शुरू करने से पहले, चार्जर कनेक्ट कर लें या सुनिश्चित कर लें कि डेटा की बैटरी में पर्याप्त पावर है और फेरि वाई-फ़ाई से कनेक्ट करें, क्योंकि अपडेट पैकेज आपका बहुत सारा मोबाइल डेटा खर्च कर सकते हैं.

## अपने डेटा का बैकअप लें

अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने फ़ोन में बैकअप सुविधा का उपयोग करें. आपका डेटा (जैसे वाई-फ़ाई पासवर्ड और कॉल इतिहास) और ऐप डेटा (जैसे कि सेटिंग और ऐप्स द्वारा संग्रहित फ़ाइलें) का बैकअप दूरस्थ रूप से लिया जाएगा.

## स्वचालित बैकअप चालू करें

**सेटिंग** > **सस्टिम** > **उन्नत** > **बैकअप** पर टैप करें और बैकअप का स्वचालित चालू कर दें.

## मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नजिी सामग्री हटाएं

दुर्घटनाएं हो सकती हैं – यदि आपका फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी सेटिंग्स पुनर्स्थापित कर सकते हैं. या, यदि आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं या अपने फ़ोन का अब और इस्तेमाल नहीं करना चाहते या उसे रीसाइकिल करना चाहते हैं, तो यहां बताया गया है कि ऐसा करने से पहले आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी और सामग्री कैसे हटा सकते हैं. याद रखें कि सभी नजिी सामग्री हटाना आपकी ज़िम्मेदारी है.

## अपना फ़ोन रीसेट करें

1. **सेटिंग** > **सस्टिम** > **उन्नत** > **रीसेट विकल्प** > **सभी डेटा मटाएँ (फ़ैक्टरी रीसेट)** पर टैप करें.
2. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले नर्देशों का पालन करें.

## मेमोरी

यह जाँचने के लिए कि आपके पास कतिनी मेमोरी उपलब्ध है, **सेटिंग** > **मेमोरी** पर टैप करें.

## अपने फ़ोन पर उपलब्ध मेमोरी की जांच करें

यदि फ़ोन की मेमोरी भरने वाली है, तो उन चीज़ों को निकाल दें जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है:

- लेख संदेश, मल्टीमीडिया और मेल संदेश
- संपर्क प्रवृष्टियां और वविरण
- ऐप्स
- संगीत, फ़ोटो या वीडियो

आप फ़ोटो और वीडियो जैसी सामग्री को भी अपने मेमोरी कार्ड में ले जा सकते हैं।

यह देखने के लिए कि आपके पास कतिनी मेमोरी उपलब्ध है और उसका किस तरह उपयोग हो रहा है, **सेटिंग** > **संग्रहण** पर टैप करें।

## डाउनलोड किए गए ऐप्स निकालें

**Play स्टोर** > **≡** > **मेरे ऐप्स और गेम्स** पर टैप करें, वह ऐप चुनें, जसि आप निकालना चाहते हैं और **अनइंस्टॉल करें** पर टैप करें।

## अपने फ़ोन और कंप्यूटर के बीच सामग्री कॉपी करें

आप अपने फ़ोटो, वीडियो और अन्य सामग्री दिखाने या संग्रहित करने के लिए उन्हें अपने फ़ोन और कंप्यूटर के बीच कॉपी कर सकते हैं।

1. अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये किसी संगत कंप्यूटर से कनेक्ट करें।
2. अपने कंप्यूटर पर, फ़ाइल प्रबंधक खोलें और ब्राउज़ करते हुए अपने फ़ोन पर जाएँ।
3. अपने फ़ोन के आइटम खींचकर कंप्यूटर पर ले जाएँ, या कंप्यूटर से आइटम खींचकर फ़ोन पर ले जाएँ।

फ़ाइलों को अपने फ़ोन पर सही फ़ोल्डर्स में रखना न भूलें, नहीं तो आप उन्हें नहीं देख सकेंगे।

## 10 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें

### स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें

आप स्क्रीन अनलॉक करते समय अपने फ़ोन को प्रमाणीकरण का अनुरोध करने के लिए सेट कर सकते हैं।

#### एक स्क्रीन लॉक सेट करें

1. **सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** > **स्क्रीन लॉक** पर टैप करें।
2. लॉक का प्रकार चुनें और अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।

### अपने फ़ोन को अपने फगिरप्रटि से सुरक्षित करें

आप अपने फ़ोन को सिर्फ अपनी उंगली से छू कर खोल सकते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपनी फगिरप्रटि ID सेट करें।

#### अंगुली की छाप जोड़ें

1. **सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** > **अंगुली की छाप** टैप करें। यदि आपके फ़ोन पर स्क्रीन लॉक सेट नहीं किया गया है, तो **SIM कार्ड लॉक सेट करें** पर टैप करें।
2. वह बैकअप अनलॉक विधि चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।

### अपने फ़ोन को अपनी उंगली से अनलॉक करें


अपनी पंजीकृत उंगली सेंसर पर रखें।

यदि कोई अंगुली की छाप सेंसर त्रुटि है, और आप फ़ोन को किसी भी तरह रिकवर या रीसेट करने के लिए वैकल्पिक साइन-इन विधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन को अधिकृत कर्मियों द्वारा सर्विस कराने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के नजिकतम सेवा केंद्र या अपने फ़ोन डीलर से संपर्क करें।

### अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना

आप अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने चेहरे का उपयोग कर सकते हैं।

## चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा सेट करना



1. **सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** > **चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा** पर टैप करें. अगर आपके फ़ोन पर स्क्रीन लॉक सेट नहीं किया गया है, तो **स्क्रीन लॉक सेट करें** पर टैप करें.
2. लॉक स्क्रीन के लिए इच्छित बैकअप वाली अनलॉक विधि चुनें और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें.

अपनी आंखें खुली रखें और सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा पूरी तरह से देखा जा सकता है और हैट तथा चश्मे जैसी किसी भी वस्तु से ढका हुआ नहीं है.



**नोट:** अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने चेहरे का उपयोग करना फ़िंगरप्रिंट, पैटर्न या पासवर्ड का उपयोग करने से कम सुरक्षित होता है. आपके फ़ोन को आपकी तरह देखने वाले व्यक्ति या वस्तु द्वारा अनलॉक किया जा सकता है. पीछे की ओर प्रकाश होने पर या बहुत अधिक अंधेरे वा उजाले वातावरण में चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा काम नहीं कर सकती है.

## अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपना फ़ोन अनलॉक करना

अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए बस स्क्रीन चालू करें और कैमरे की ओर देखें.

अगर चेहरे की पहचान करने में कोई त्रुटि हो रही है और आप फ़ोन को रिकवर या रीसेट करने के लिए किसी भी तरीके से साइन-इन की वैकल्पिक विधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फ़ोन की सर्वसिगि करानी होगी. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुविधा या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें.

## अपने SIM का पिन कोड बदलें

यदि आपके SIM कार्ड में पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट SIM पिन कोड था, तो आप उसे और भी सुरक्षित पिन कोड से बदल सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि सभी नेटवर्क सेवा प्रदाता इसका समर्थन करें.

## अपना SIM पनि चुनें

आप चुन सकते हैं कि सिमि पनि के लिए कनि संख्याओं का उपयोग किया जाए. SIM पनि कोड में 4-8 संख्याएं होनी चाहिए.

1. सेटिंग > सुरक्षा और स्थान > उन्नत > सिमि कार्ड लॉक पर टैप करें.
2. चयनति SIM कार्ड के अंतर्गत, SIM पनि बदलें पर टैप करें.



**युक्ति:** यदि आप अपने सिमि को पनि कोड से सुरक्षति नहीं करना चाहते, तो सिमि कार्ड लॉक सेट करें में, SIM कार्ड लॉक करें वाला स्वचि बंद कर दें और फरि अपना मौजूदा पनि टाइप करें.

## एक्सेस कोड

जानें कि आपके फ़ोन पर मौजूद अलग-अलग कोड कसि काम आते हैं.

### पनि या पनि2 कोड

पनि या पनि2 कोड में 4-8 अंक होते हैं.

ये कोड आपके SIM कार्ड की अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करते हैं और कुछ सुवधिएं एक्सेस करने के लिए आवश्यक होते हैं. आप अपने फ़ोन के चालू होने पर उसे पनि कोड मांगने के लिए सेट कर सकते हैं.

यदि आप कोड भूल जाते हैं या वे आपके कार्ड के साथ प्रदान नहीं किए गए हैं, तो अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

यदि आप लगातार 3 बार गलत कोड डालते हैं, तो आपको PUK या PUK2 कोड का उपयोग करके कोड अनब्लॉक करना होगा.

### PUK या PUK2 कोड

PUK या PUK2 कोड की ज़रूरत पनि या पनि2 कोड को अनब्लॉक करने के लिए पड़ती है.

यदि आपके SIM कार्ड के साथ कोड प्रदान नहीं किए गए हैं, तो अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

### लॉक कोड

लॉक कोड को सुरक्षा कोड या पासवर्ड भी कहा जाता है.

लॉक कोड आपके फ़ोन की अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करने में आपकी मदद करता है. आप अपने फ़ोन को आपके द्वारा निर्धारित किया गया लॉक कोड मांगने के लिए भी सेट कर सकते हैं. कोड को अपने फ़ोन से अलग कसि गोपनीय और सुरक्षति स्थान में रखें.

यदि आप कोड भूल जाते हैं और आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, तो आपके फ़ोन को सेवा केंद्र ले जाना पड़ेगा. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुवधिया या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें.

## IMEI कोड

IMEI कोड का उपयोग नेटवर्क में मौजूद फ़ोन की पहचान के लिए किया जाता है. हो सकता है कि आपको अपने अधिकृत सेवा सुवधा सेवाओं या फ़ोन डीलर को नंबर देना पड़े.

अपना IMEI नंबर देखने के लिए **\*#06#** डायल करें.

आपके फ़ोन के मॉडल के अनुसार आपके फ़ोन का IMEI कोड आपके फ़ोन पर या आपकी SIM ट्रे पर मुद्रित होता है. अगर आपके फ़ोन में निकालने योग्य पछिला कवर है, तो आपको IMEI कोड कवर के नीचे मिल सकता है.

IMEI मूल वक्रिय बॉक्स पर भी दिखाई देता है.

## अपने फ़ोन का पता लगाएं या उसे लॉक करें

अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप उसे दूरस्थ रूप से खोज सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या मटिा सकते हैं, अगर आपने Google खाते में साइन इन किया है. Google खाते से संबद्ध फ़ोन के लिए मेरा डविाइस खोजें डफ़िॉल्ट रूप से चालू होता है.

मेरा डविाइस खोजें का उपयोग करने के लिए आपका गुम हुआ फ़ोन यह होना चाहिए:

- चालू किया गया
- Google Play पर दृश्यमान है
- Google खाते में साइन इन किया गया
- स्थान चालू किया गया
- मोबाइल डेटा या वाई-फाई से कनेक्टेड
- मेरा डविाइस खोजें चालू किया गया

जब मेरा डविाइस खोजें आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको फ़ोन का स्थान दिखाई देता है और फ़ोन पर सूचना प्राप्त होती है.

1. इंटरनेट से कनेक्ट किसी कंप्यूटर/टैबलेट या फ़ोन पर [android.com/find](https://android.com/find) खोलें और अपने Google खाते में साइन इन करें.
2. अगर आपके पास एक से अधिक फ़ोन हैं, तो स्क्रीन के ऊपरी भाग में गुम हुए फ़ोन पर क्लिक करें.
3. मानचित्र पर, यह देखें कि फ़ोन कहां है. स्थान अनुमानित होता है और हो सकता है कि यह सटीक न हो.

अगर आपका डविाइस नहीं मिल सकता है, तो मेरा डविाइस खोजें उपलब्ध होने पर इसका अंतिम ज्ञात स्थान दिखाएगा. अपने फ़ोन को लॉक करने या मटिाने के लिए, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

## 11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

### आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें। इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

### मना की गई जगहों पर डविाइस बंद करें



जब मोबाइल डविाइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डविाइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें।

### सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें। कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें। वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए।

### व्यवधान



## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सभी वायरलेस डेवाइस व्यवधान के प्रति अति-संवेदनशील होते हैं, जिससे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है।

### अधिकृत सेवा



इस उत्पाद को केवल अधिकृत कर्मचारी इंस्टॉल या मरम्मत कर सकते हैं।

### बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डेवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें। अनुपयुक्त डेवाइस कनेक्ट न करें।

### अपने डेवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डेवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डेवाइस की तकनीकी विनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

## कांच के पुरजे



इस डविाइस और/या इसकी स्क्रीन कांच से नर्मिति है. यदि डविाइस किसी कठोर सतह पर गरिता है या उसे तेज़ आघात लगता है, तो यह कांच टूट सकता है. यदि कांच टूट जाता है, तो डविाइस के कांच के पुरजों को स्पर्श न करें या डविाइस से टूटा हुआ कांच नकालने का प्रयास न करें. जब तक अधिकृत सेवा कर्मचारी कांच न बदले, तब तक इस डविाइस का उपयोग न करें.

## अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डविाइस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

## SAR



यह डविाइस कान से सटाकर सामान्य स्थिति में उपयोग करने पर या फरि शरीर से कम-से-कम 1.5 सेमी (5/8 इंच) दूर रखने पर RF एक्सपोजर के दशानरिदेशों का पालन करता है. SAR संबंधी अधिकतम वशिष्ट मान इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारी (SAR) वाले सेक्शन में पाई जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए, इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का प्रमाणन सूचना (SAR) अनुभाग देखें या [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com) पर जाएं।

## नेटवर्क सेवाएं और लागतें

कुछ सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करने, या मुफ्त सामग्री सहित सामग्री डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा का स्थानांतरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा लागत बढ़ सकती है। आपको कुछ सुविधाओं की सदस्यता लेने की भी आवश्यकता हो सकती है।

**महत्वपूर्ण:** हो सकता है आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता या यात्रा के दौरान आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा सेवा प्रदाता 4G/LTE का समर्थन न करता हो। ऐसे मामलों में, आप न तो कॉल कर सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे, न तो संदेश भेज सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे और न ही मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग कर सकेंगे। यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूर्ण 4G/LTE सेवा उपलब्ध न होने पर भी आपका डेटा न रूपांतरण काम करता रहे, तो आपको उच्चतम कनेक्शन गति को 4G से 3G में बदलने का सझाव दिया जाता है। ऐसा करने के लिए होम स्क्रीन पर **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > मोबाइल नेटवर्क > उन्नत** पर टैप करें और **पसंदीदा नेटवर्क प्रकार** को **3G** पर बदलें।

**नोट:** कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5150–5350 MHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

कुछ सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करने, या निःशुल्क आइटमों सहित कोई भी सामग्री डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके कारण डेटा का बड़ी मात्रा में स्थानांतरण हो सकता है, जिसके कारण आपसे डेटा शुल्क लिया जा सकता है। कुछ सुविधाओं के लिए आपको सदस्यता भी लेनी पड़ सकती है।


## आपातकालीन कॉल


**महत्वपूर्ण:** सभी परिस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है। चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें।

कॉल करने से पहले:

- फ़ोन चालू करें।
- यदि फ़ोन स्क्रीन और कुंजियां लॉक हैं, तो उन्हें अनलॉक करें।
- ऐसी जगह पर चले जाएं, जहां सग्नल की शक्ति पर्याप्त है।

किसी भी स्क्रीन पर आपातकालीन कॉल करने के लिए, पावर कुंजी को 3 बार दबाएँ।

होम स्क्रीन में,  पर टैप करें

1. अपने मौजूदा स्थान के लिए अधिकारिक आपातकालीन नंबर टाइप करें। आपातकालीन कॉल नंबर स्थान-दर-स्थान अलग-अलग होते हैं।
2.  पर टैप करें।

3. ज़रूरी और जतिनी हो सके सटीक जानकारी दें. कॉल समाप्त करने की अनुमति मिलने तक कॉल समाप्त न करें.

आपको नमिन कार्य भी करना पड़ सकता है:

- फ़ोन में एक SIM कार्ड डालें. यदि आपके पास SIM नहीं है, तो लॉक स्क्रीन में **आपातकाल** पर टैप करें.
- यदि आपका फ़ोन पनि कोड मांगता है, तो **आपातकाल** पर टैप करें.
- अपने फ़ोन में कॉल बारगि, फ़िक्सड डायलिंग या क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप जैसे कॉल प्रतबंध बंद कर दें.
- यदि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो आप इंटरनेट से कॉल करने का भी प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें.

## अपने डविाइस का ध्यान रखें

अपने डविाइस, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से इस्तेमाल करें. नमिन सुझाव आपके डविाइस को सुचारू रखने में मदद सकते हैं.

- डविाइस को सूखा रखें. नमी, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थों या नम चीज़ों में मनिरल्स हो सकते हैं, जो वदियुतीय सर्कटि को धीरे-धीरे खराब कर सकते हैं
- डविाइस को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या भंडारण न करें।
- डविाइस को उच्च तापमान पर न रखें। उच्च तापमान डविाइस या बैटरी को क्षतिपिहुंचा सकते हैं.
- डविाइस को ठंडे तापमान में न रखें। ऐसे में डविाइस के सामान्य तापमान में लौटने पर उसके अंदर नमी उत्पन्न हो सकती है और उससे डविाइस को क्षतिपिहुंच सकती है.
- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए नरिदेशों के अलावा डविाइस को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षतिपिहुंच सकती है तथा रेडियो उपकरणों को नियंत्रित करने वाले वनियमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डविाइस या बैटरी को गरिएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हलियां नहीं। गलत तरीके से पकड़ने पर टूटने की संभावना रहती है.
- डविाइस की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डविाइस पर पेंट न करें. पेंटिंग करने से डविाइस का सही से संचालित होना रुक सकता है.
- डविाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कि आपका डविाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लिख लें।

लंबे समय तक उपयोग करने से डविाइस गर्म हो सकता है. ज्यादातर मामलों में यह बात सामान्य है. अत्यधिक गर्म होने से रोकने के लिए, डविाइस अपने आप धीरे चल सकता है, ऐप बंद कर सकता है, चार्जिंग बंद कर सकता है और आवश्यकता होने पर डविाइस खुद बंद हो सकता है. अगर डविाइस सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे नज़दीक के अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं.

## रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके वद्युतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजिंग के मटेरियल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें। इससे अनियंत्रित कूड़े का नपिटारा करने और मटेरियल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरियल रहता है, जैसे कि धातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्नेशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और प्लैटिनम)। डवाइस के सारे मटेरियल को मटेरियल या ऊर्जा के तौर पर रिकवर किया जा सकता है।

## ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रॉस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रॉस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बनि पर क्रॉस के नशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है कि सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले डवाइस से नज्जी डेटा निकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर नगिम के नहीं छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने नज्जिम रीसाइकलिंग पॉइंट की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशिष्ट प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle) पर पढ़ें।

## बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

### बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फोन की बैटरी निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रित मार्गदर्शिका देखें।

**नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डविाइस** अपने डविाइस का केवल ओरजिनल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें. बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डसिचार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी. जब टॉक और स्टैडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें.

**बना नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण** बैटरी नकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डविाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डसिचार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी. जब टॉक और स्टैडबाई का समय सामान्य से काफी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डविाइस को किसी नकिटतम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएँ.

अपने डविाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें. चार्जर के प्लग का प्रकार भिन्न हो सकता है. चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

## बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डविाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डविाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग नकाल दें. कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए. उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डसिचार्ज होती जाएगी.

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है. अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें. हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डविाइस कुछ देर तक काम न कर पाए. ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मनिटों में फोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति खो सकती है. जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फोन को गर्म रखें.

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें. संभव होने पर रीसाइकल करें. घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें.

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक नमिन् दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में नपिटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का वसिफोट या रसिाव हो सकता है.

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षतपिहुंचाने का काम न करें. बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें. ऐसा होने पर, प्रभावति जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें. बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फरि उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटति करने का काम न करें. क्षतपिहुंचाने पर बैटरी फट सकती है.

बैटरी या चार्जर का उपयोग नहिति उद्देश्यों के लिए ही करें. सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृति नहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, वसिफोट होने या अन्य खतरे का जोखमि उत्पन्न हो सकता है और इससे कोई भी स्वीकृति या वारंटी अमान्य हो सकती है. अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतगिरस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएँ या फरि अपने फोन डीलर को दिखाएं. कभी भी क्षतगिरस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें. केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें. बजिली कड़कने पर अपने डविाइस को चार्ज न करें. जब चार्जर बकिरी पैक में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डविाइस को चार्ज करें. आप अपने डविाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो. हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है.

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं।

इसके अलावा, यदि आपके डेवाइस की बैटरी निकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- किसी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डेवाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मिक रूप से शॉर्ट-सर्किट हो सकती है। इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षतिग्रस्त हो सकती है।

## छोटे बच्चे

आपका डेवाइस और इसके एक्सेसरीज़ खिलौने नहीं हैं। उनमें छोटे-छोटे पुर्जे हो सकते हैं। उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

## चकित्सा उपकरण

वायरलेस फ़ोन जैसे रेडियो ट्रांसमिटर करने वाले डेवाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षा चकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चकित्सक या उक्त उपकरण के निर्माता से सलाह-परामर्श लें।

## प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण

संभावित व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपित चकित्सा डेवाइस (जैसे कि कार्डिएक पेसमेकर, इंसुलिन पंप और न्यूरोस्टिम्युलेटर) निर्माता वायरलेस डेवाइस और चकित्सा डेवाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्तियों को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- वायरलेस डेवाइस को हमेशा मेडिकल डेवाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डेवाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डेवाइस को चकित्सा उपकरण के वपिरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डेवाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपित चकित्सा उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डेवाइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

## सुनने की क्षमता



**चेतावनी:** जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाज़ें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें।

कुछ वायरलेस डेवाइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं।

## अपने डविाइस की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें

आपका डविाइस वायरस या अन्य हानिकारक सामग्री के संपर्क में आ सकता है. नमिनलखिति सावधानियां रखें:

- संदेश खोलते समय सावधान रहें। उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या वे आपके डविाइस अथवा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- कनेक्टविटि अनुरोध स्वीकार करते समय, इंटरनेट ब्राउज़ करते समय या सामग्री डाउनलोड करते समय सावधान रहें। गैर-भरोसेमंद स्रोतों से ब्लूटूथ कनेक्शन स्वीकार न करें।
- केवल उन स्रोतों से सेवाएँ और सॉफ्टवेयर स्थापति करें और उनका उपयोग करें जनि पर आपको भरोसा हो और जो पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हों।
- अपने डविाइस और उससे जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक बार में केवल एक एंटीवायरस ऐप का उपयोग करें। ज्यादा एंटीवायरस का उपयोग करने पर डविाइस और/या कंप्यूटर का प्रदर्शन और संचालन प्रभावित हो सकता है।
- यदि आप पूर्वस्थापित बुकमार्क्स और तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों के लकि तक पहुंचते हैं, तो उचित सावधानी बरतें। HMD Global ऐसी साइटों का न तो अनुमोदन करता है और न ही उनकी ज़िम्मेदारी लेता है।

## वाहन

रेडियो सिग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली वदियुतीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है. अधिक जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के निर्माता से संपर्क करें. वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डविाइस इंस्टॉल किया जाना चाहिए. गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है. नियमिति रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डविाइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कनिही. डविाइस, उसके पुर्जे या एक्सेसरीज़ जसि खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या वसिफोटक मटेरियल रखने या ढोने का काम न करें. एयरबैग वाली जगह पर अपना डविाइस या एक्सेसरीज़ न रखें.

## संभावति रूप से वसिफोटक जगहें

गैसोलनि पंप जैसी संभावति रूप से वसिफोटक जगहों पर अपना डविाइस बंद करें. चगियारियों से वसिफोट या आगजनी हो सकती है, जसिसे चोट या मृत्यु हो सकती है. ईधन, रासायनकि पदार्थों के प्लांट या वसिफोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दिए गए नषिधों पर ध्यान दें. संभावति रूप से वसिफोटक जगहों पर हो सकता है कि सिसाफ संकेत न हों. सामान्य रूप से ये वो जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनकि पदार्थ के स्थानांतरण या फ़ैसलिटि पर और जहां हवा में रासायनकि पदार्थ या कण हों. तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे कि प्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के निर्माताओं से पूछताछ करें कि उनके आस-पास यह डविाइस सुरक्षिति तरीके से उपयोग किया जा सकता है कनिही.

## प्रमाणन जानकारी (SAR)

**This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields), recommended by international guidelines from the independent scientific organization ICNIRP. These guidelines incorporate substantial safety margins that are intended to assure the protection of all persons regardless of age and health. The exposure guidelines are based on the Specific Absorption Rate (SAR), which is an expression of the amount of radio frequency (RF) power deposited in the head or body when the device is transmitting. The ICNIRP SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of tissue.

SAR tests are carried out with the device in standard operating positions, transmitting at its highest certified power level, in all its frequency bands.

This device meets RF exposure guidelines when used against the head or when positioned at least 5/8 inch (1.5 centimetres) away from the body. When a carry case, belt clip or other form of device holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should provide at least the above stated separation distance from the body.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the India Department of Telecommunications. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

To send data or messages, a good connection to the network is needed. Sending may be delayed until such a connection is available. Follow the separation distance instructions until the sending is finished.

During general use, the SAR values are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimise interference on the network, the operating power of your mobile is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output, the lower the SAR value.

Device models may have different versions and more than one value. Component and design changes may occur over time and some changes could affect SAR values.

For more info, go to [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Note that mobile devices may be transmitting even if you are not making a voice call.

The World Health Organization (WHO) has stated that current scientific information does not indicate the need for any special precautions when using mobile devices. If you are interested in reducing your exposure, they recommend you limit your usage or use a hands-free kit to keep the device away from your head and body. For more information and explanations and discussions on RF exposure, go to the WHO website at [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## डजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डविाइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहति दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें. कॉपीराइट सुरक्षा आपको फ़ोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधति करने या स्थानांतरति करने से रोक सकती है.

## कॉपीराइट और नोटिस

### कॉपीराइट और अन्य नोटिस

क्षेत्र के अनुसार उत्पादों, सुविधाओं, ऐप्स और सेवाओं की उपलब्धता में फ़र्क हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने डीलर या अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें। इस ड़िवाइस में ऐसी वस्तुएं, प्रौद्योगिकी या सॉफ़्टवेयर समाहित हो सकते हैं, जो यूएस तथा अन्य देशों के नरियात कानून और वनियमों के अधीन हो सकते हैं। कानून के वरिद्ध वचिलन पर प्रतबिंध है।

इस दस्तावेज़ की सामग्री "यथारूप" प्रदान की गई है। जब तक लागू कानून द्वारा आवश्यक न हो, इस दस्तावेज़ की सटीकता, वशिवसनीयता या सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी वॉरंटी, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, नहीं दी जाती, जसिमें वाणज्यिकता और किसी ख़ास प्रयोजन के लिए उपयुक्तता से संबंधित नहिति वॉरंटियां भी शामिल हैं, लेकनि यह इन्हीं तक सीमति नहीं है। HMD Global इस दस्तावेज़ में संशोधन करने और बना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, किसी भी परस्थिति में HMD Global या उसका कोई लाइसेंसकर्ता किसी भी कारण से होने वाले डेटा या आय की हानि या वशिष्ट, आकस्मिक, परणामी या अप्रत्यक्ष हानियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

HMD Global की पूर्व लखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ के किसी भी हस्से या इसकी संपूर्ण सामग्री के पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वविरण पर प्रतबिंध है। HMD Global नरितर वकिस की नीति पर काम करता है। HMD Global बना किसी पूर्व सूचना के इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी उत्पाद में परविरतन और सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

HMD Global आपके ड़िवाइस के साथ प्रदान किए गए तृतीय-पक्ष ऐप्स की कार्यात्मकता, सामग्री या अंतमि-उपयोगकर्ता समर्थन का न तो कोई प्रतनिधित्व करता है, न कोई वॉरंटी प्रदान करता और न ही इनकी ज़िम्मेदारी लेता है। इस ऐप का उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि ऐप यथारूप प्रदान किया गया है।

मानचित्र, गेम्स, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने और छवियां व वीडियो अपलोड करने में डेटा की बड़ी मात्रा खर्च हो सकती है। आपका सेवा प्रदाता आपसे डेटा ट्रांसमिशन का शुल्क ले सकता है। वशिष्ट उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग हो सकती है। अतरिकित वविरण और भाषा वकिल्पो की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें।

कुछ सुविधाएं, कार्यात्मकता और उत्पाद वविरण नेटवर्क आधारित हो सकते हैं और उन पर अतरिकित नयिम, शर्तें और शुल्क लागू हो सकते हैं।

प्रदान किए गए सभी वनिरिदेश, सुविधाएँ और अन्य उत्पाद जानकारी बना किसी सूचना के परविरतित की जा सकती है।

<http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध HMD Global की गोपनीयता नीति आपके द्वारा किए जाने वाले इस ड़िवाइस के उपयोग पर लागू होती है।

HMD Global Oy फ़ोन और टैबलेट के Nokia ब्रांड का एकमात्र लाइसेंसधारक है। Nokia, Nokia Corporation का पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

ZEISS और ZEISS लोगो Carl Zeiss AG के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, जनिका उपयोग Carl Zeiss Vision GmbH के लाइसेंस के तहत किया गया है।

## Nokia 7.2 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

Android, Google और अन्य संबंधित चहिन और लोगो Google LLC के ट्रेडमार्क हैं।

ब्लूटूथ के शब्द चहिन और लोगो पर Bluetooth SIG, Inc. का स्वामित्व है और HMD Global द्वारा ऐसे चहिनों का किसी भी प्रकार का उपयोग लाइसेंस के अधीन किया जाता है।

Pixelworks और Pixelworks लोगो, Pixelworks, Inc. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

## OZO



OZO, Nokia Technologies Oy का ट्रेडमार्क है।

## Qualcomm aptX



Qualcomm और Snapdragon ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में पंजीकृत Qualcomm Incorporated के ट्रेडमार्क हैं। aptX भी संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में पंजीकृत Qualcomm Technologies International, Ltd. का ट्रेडमार्क है।